



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण 1930 (श10)
(सं0 पटना 548) पटना, बुधवार 3 दिसम्बर 2008

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

7 अगस्त 2008

एस0ओ0 323, दिनांक 3 दिसम्बर 2008--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के अन्तर्गत विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के निर्धारण/पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए अधिसूचना संख्या 4502 दिनांक 06.12.07 द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का पुनर्गठन किया गया ।

उपर्युक्त गठित पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों को देय यात्रा भत्ता एवं सदैनिक भत्ता के संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पूर्व निर्गत अधिसूचना की कंडिका-4 में आंशिक संशोधन करने के बाद राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा- 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या- 4502 दिनांक- 06.12.07 द्वारा गठित बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद का निम्न रूप में पुनर्गठन करती है ।

स्वतंत्र सदस्य

- | | |
|--|----------------|
| (1) प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना । | अध्यक्ष |
| (2) श्रमायुक्त, बिहार | सचिव-सह-संयोजक |
| (3) निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय,
बिहार, पटना । | सदस्य |
| (4) ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि- | सदस्य |

- (5) अभियंता प्रमुख, सदस्य
मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग
तकनीकी परीक्षक कोषांग,
बिहार, पटना के एक प्रतिनिधि-
- (6) कृषि विभाग, बिहार सरकार सदस्य
के एक प्रतिनिधि ।
- (7) विभागाध्यक्ष, सदस्य
श्रम एवं समाज कल्याण विभाग
पटना विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि ।
- (8) पर्यावरण एवं वन विभाग, सदस्य
के एक प्रतिनिधि ।

नियोजकों के प्रतिनिधि

- (1) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन,
सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना ।
- (2) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
खेमचन्द्र चौधरी मोर्ग, पटना ।
- (3) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
नार्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्रीज, पर्षद भवन, मुजफ्फरपुर ।
- (4) मेसर्स एस0 के0 नसीरुद्दीन बीड़ी कम्पनी, सदस्य
बिहार शरीफ, नालन्दा ।
- (5) प्रबंध, निदेशक, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, सदस्य
प्रा0 लिमिटेड, पटना ।
- (6) श्री संजीव चौधरी, गंगोत्री आयरन एंड सदस्य
स्टील कम्पनी लि0, आशियाना टॉवर,
एक्जीवीशन रोड, पटना ।
- (7) प्रबंध निदेशक, होटल मौर्या, दक्षिणी सदस्य
गान्धी मैदान, पटना ।
- (8) अध्यक्ष, बस ऑनर्स एशोसिएशन, सदस्य
बिहार, पटना ।
- (9) श्री चन्द्रवंशी सिंह, सदस्य
भुतपूर्व मुखिया (ईट निर्माता),
दीघा घाट, पटना । सदस्य
- (10) श्री अनिल प्रसाद सिंह, सदस्य
मोहन कोल्ड स्टोरेज,
मोहनपुर रोड, समस्तीपुर ।
- (11) श्री मोहन सिंह, लघु उद्योग भारती, सदस्य
आद्योगिक प्रांगण, हाजीपुर (वैशाली)
- (12) अध्यक्ष, न्यू स्वदेशी सूगर मिल, (ग्राम-बिरला) सदस्य
नरकटियागंज, (पश्चिमी चम्पारण)-845455

नियोजकों के प्रतिनिधि

- (1) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, बिहार
रोड नं0-3, राजीव नगर, पटना ।
- (2) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
काँग्रेस (एटक) बिहार, केदार भवन,
अदालतगंज, पटना ।
- (3) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
हिन्द मजदूर सभा, बिहार कैम्प कार्यालय,
ग्राम एवं पोस्ट-सकरी, जिला- मधुबनी ।
- (4) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
भारतीय मजदूर संघ, (बिहार प्रदेश)
क्वार्टरनं0-1, रोड नं0-1, गर्दनीबाग, पटना ।
- (5) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र, (बिहार कमिटी)
15 एम0एल0ए0 फ्लैट वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।
- (6) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
यूनाईटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस,
बिहार राज्य कमिटी
शीतलवासी कुंवर निवास, पुरन्दरपुर, मीठापुर, पटना ।
- (7) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर, (लेनिन सारणी)
बिहार राज्य कमिटी, मेनका मार्केट,
प्रथम तल्ला, नाला रोड, पटना ।
- (8) महामंत्री भागलपुर जिला को-आपरेटिव, सदस्य
(सूत) स्पनिंग मिल्स कामगार यूनियन, अलीगंज, भागलपुर ।
- (9) डा0 सियाराम शर्मा, अध्यक्ष, सदस्य
अध्यक्ष, खेतिहर मजदूर संघ,
पश्चिम बिहार, रंजनपथ, बेली रोड, दानापुर, पटना ।
- (10) महामंत्री, सदस्य
बिहार राज्य कोल्ड स्टोरेज कर्मचारी संघ,
श्रमिक भवन, मोह0-बड़ी पहाड़ी, पो0-सोहसराय,
बिहार शरीफ, नालन्दा
- (11) अध्यक्ष/सचिव, सदस्य
बिहार राज्य खेतिहर मजदूर संघ,
मोह0-बड़ी पहाड़ी, पो0-सोहसराय,
बिहार शरीफ, नालन्दा
- (12) श्री कविन्द्र सिंह, सदस्य
बिहार प्रदेश पथ परिवहन कर्मचारी संघ,
सुल्तानगंज, पटना ।
भारतीय मजदूरी संघ, रोड नं0-1, क्वार्टर नं0-1
गर्दनीबाग, पटना ।

2. समिति का मुख्यालय पटना में रहेगा ।
 3. समिति की अवधि दो वर्षों की होगी परन्तु दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अगला पुनर्गठन होने तक उक्त समिति कार्य करती रहेगी ।

4. चूँकि यह समिति वैधानिक (Statutory) है अतएव बिहार या / दैनिक भत्ता नियमावली 1949 के नियम 144 (1) के अंतर्गत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०-1524 दिनांक- 10.03.2000 के कंडिका- 3 (ए०) (ii) में अंकित वेतन सीमा (8000 रुपया एवं इसके अधिक किन्तु 16400 रुपया से कम) के आलोक में समिति के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो उस स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ बैठक हो रही है, के निमित्त द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी माने जाएंगे, जिन्हें निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता देय होगा :-

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| 1. रेल यात्रा- | (i) सभी ट्रेनों के लिए | ए०सी० 2 टीयर |
| | (ii) राजधानी एक्सप्रेस | तदैव |
| | (iii) शताब्दी एक्सप्रेस | ए०सी० कुर्सीयान |
| 2. सड़क यात्रा- | गैर ए०सी० टैक्सी/बस | |
| 3. (i) दैनिक भत्ता (अन्य शहरों के लिए) सामान्य- | | रुपया 120/- |
| (ii) होटल- | | रुपया 225/- |

सदस्य को यह यात्रा विराम भत्ता उसी दशा में अनुमान्य होगा जब वे यह प्रमाणित कर देंगे कि उन्होंने जि यात्रा/विराम भत्ता के लिए दावा किया है, उसके संबंध में उन्होंने दूसरे श्रोत से कोई यात्रा/विराम भत्ता नहीं लिया है ।

5. श्रमायुक्त, बिहार समिति के सचिव-सह-संयोजक गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे ।

6. इसका व्यय आय-व्यय शीर्ष " 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0013-सरकार द्वारा गठित समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता विपत्र कोड-एन०-2052000900013 के अन्तर्गत यात्रा व्यय इकाई से विकलनीय होगा ।

7. यात्रा भत्ता के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को अग्रसारित की जाय ।

(5/एम०डब्लू०-1016/2005श्र०सं०-3985)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
 सिराजुद्दीन अंसारी,
 सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 548-571+50-डी०टी०पी०।